

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2015—कार्तिक 8, शक 1937

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-35-71-2015-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, 24-रतलाम (अ.ज.जा.), संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 171-देवास, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप चुनाव 2015 के लिए निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(ए) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा:—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
3. रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन.
4. जिला रतलाम एवं देवास व उनके अधिनस्थ समस्त पुलिस अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. गुप्ता, सचिव.